



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260669
CG-DL-E-01022025-260669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/माघ 10, 1946

No. 527]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/MAGHA 10, 1946

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

का.आ. 531(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 993 (अ), तारीख 01 मार्च, 2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 01 मार्च, 2024 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 863.00 हेक्टर (लगभग) या 2132.47 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 861.701 हेक्टर (लगभग) या 2129.27 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जी.एम.(एल एंड आर)/भूमि/17, तारीख 29 नवम्बर 2024 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के

क्रम सं.	ग्राम का नाम	ग्राम संख्या	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
1.	रलिया (भाग)	5503250	00051	दीपका (कठघोरा)	कोरबा	386.766	इस अधिग्रहण में संपूर्ण ग्राम सम्मिलित है।
2.	मुडियानार	5503239	00053	दीपका (कठघोरा)	कोरबा	87.896	संपूर्ण ग्राम पर विचार किया जा रहा है
3.	भिलाईबाजार (भाग)	5503238	00053	दीपका (कठघोरा)	कोरबा	364.741	इस अधिग्रहण में संपूर्ण ग्राम सम्मिलित है।
कुल						839.403	

(ख) राजस्व वन भूमि:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	ग्राम संख्या	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
1.	रलिया (भाग)	5503250	00051	दीपका (कटघोरा)	कोरबा	22.298	इस अधिग्रहण में संपूर्ण ग्राम सम्मिलित है।
कुल						22.298	

कुल योग (क + ख) = 839.403+22.298 = 861.701 हेक्टेयर (लगभग) या 2129.27 एकड़ (लगभग)

- ग्राम रलिया (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या: 14(भाग), 16/1 (भाग), 16/6 (भाग), 17, 32/1 (भाग), 34/1 to 34/11 सभी भाग, 38/1 (भाग), 38/2 (भाग), 38/7 से 38/193 सभी भाग, 214 से 219 सभी प्लॉट, 228 से 230 सभी प्लॉट, 231/1 (भाग), 231/2, 231/3 232/1 और 232/2, 236 से 1001 सभी प्लॉट।
- ग्राम मुडियानार में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या: खसरा संख्या 1 से 326 तक सभी खसरे।
- ग्राम भिलाईबाजार (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या: 20 (भाग), 72 (भाग), 79/4 (भाग), 84 (भाग), 85 से 105, 114 (भाग), 116 से 194, 195 (भाग), 204, 205, 223 से 239, 273 से 1511।

यदि वर्तमान प्रस्ताव रलिया, भिलाईबाजार और मुडियानार गांवों के संपूर्ण अधिग्रहण के लिए है; अतः कोई भूमि संख्यांक 1, 2 और 3 के अधीन उल्लिखित नहीं है और तब यह नक्शा क्रमांक एसईसीएल/बीएसपी/जी.एम.(एल एंड आर)/भूमि/17, तारीख 29 नवम्बर 2024 में उपदर्शित धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अर्जित सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा।

सीमा वर्णन:

- अ-ब: रेखा बिन्दु 'अ' (ग्राम अमगाँव, रलिया एवं सरईसिंगार का मिलान बिन्दु) से शुरू होकर प्रारंभ में अधिग्रहीत ग्राम रलिया की दक्षिणी सीमा रेखा के अनुदिश चलती है, तदोपरांत ग्राम रलिया और भिलाईबाजार की उभय ग्राम सीमा रेखा पर चलकर बिन्दु 'ब' (ग्राम भिलाईबाजार, मुडियानार एवं पूर्व अधिग्रहित रलिया(भाग) का मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- ब-स: रेखा बिन्दु 'ब' (ग्राम भिलाईबाजार, मुडियानार एवं पूर्व अधिग्रहित रलिया(भाग) का मिलान बिन्दु) से शुरू होती है। तदोपरांत ग्राम भिलाईबाजार एवं मुडियानार की उभय सीमा पर चलती हुई बिन्दु 'स' (अधिग्रहित ग्राम भिलाईबाजार अनाधिग्रहित भिलाईबाजार एवं मुडियानार के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- स-द: रेखा बिन्दु 'स' (अधिग्रहित ग्राम भिलाईबाजार अनाधिग्रहित भिलाईबाजार एवं मुडियानार के मिलान बिन्दु) से शुरू होती है, तदोपरांत ग्राम भिलाईबाजार के दक्षिणी सीमा के अनुदिश चलती हुई ग्राम बाहनपाठ और भिलाईबाजार की उभय सीमा पर चलती है। तदोपरांत पुनः पूर्व अधिग्रहित ग्राम भिलाईबाजार की दक्षिणी सीमा पर चलती हुई ग्राम भठोरा एवं भिलाईबाजार की उभय सीमा में चलकर बिन्दु 'द' (ग्राम भठोरा, बरभांठा एवं भिलाईबाजार के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- द-ई: रेखा बिन्दु 'द' (ग्राम भठोरा, बरभांठा एवं भिलाईबाजार के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम बरभांठा एवं भिलाईबाजार की उभय सीमा पर चलती हुई बिन्दु 'ई' (ग्राम बरभांठा, केसला और भिलाईबाजार के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- ई-फ : रेखा बिन्दु 'ई' (ग्राम बरभांठा, केसला और भिलाईबाजार के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम भिलाईबाजार एवं केसला की उभय ग्राम सीमा पर चलती हुई बिन्दु 'फ' (ग्राम केसला, भिलाईबाजार एवं महुआडीह के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- फ-ग: रेखा बिन्दु 'फ' (ग्राम केसला, भिलाईबाजार एवं महुआडीह के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम महुआडीह और भिलाईबाजार की उभय ग्राम सीमा पर चलती हुई बिन्दु 'ग' (ग्राम भिलाईबाजार, महुआडीह और दर्री के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।

- ग-च: रेखा बिन्दु 'ग' (ग्राम भिलाईबाजार, महुआडीह और दर्री के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम भिलाईबाजार एवं दर्री की उभय सीमा रेखा पर चलती हुई बिन्दु 'च' (ग्राम भिलाईबाजार(अनाधिग्रहित), दर्री और छिन्दपुर के मिलान बिन्दु) पर पहुंचती है।
- च-छ: रेखा बिन्दु 'च' (ग्राम भिलाईबाजार(अनाधिग्रहित), दर्री और छिन्दपुर के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम छिन्दपुर एवं भिलाईबाजार(अनाधिग्रहित) उभय सीमा रेखा पर चलती हुई बिन्दु 'छ' (ग्राम भिलाईबाजार(अनाधिग्रहित) मुडियानार एवं छिन्दपुर के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- छ-ज: रेखा बिन्दु 'छ' (ग्राम भिलाईबाजार(अनाधिग्रहित) मुडियानार एवं छिन्दपुर के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम छिन्दपुर एवं मुडियानार की उभय सीमा रेखा पर चलती हुई बिन्दु 'ज' (ग्राम रलिया, मुडियानार एवं छिन्दपुर के मिलान बिन्दु) पर पहुंचती है।
- ज-क: रेखा बिन्दु 'ज' (ग्राम रलिया, मुडियानार एवं छिन्दपुर के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम रलिया एवं छिन्दपुर की उभय सीमा रेखा पर चलती हुई बिन्दु 'क' (ग्राम छिन्दपुर, रलिया एवं मुढाली के मिलान बिन्दु)
- क-ल: रेखा बिन्दु 'क' (ग्राम छिन्दपुर, रलिया एवं मुढाली के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम रलिया और मुढाली के उभय सीमा रेखा पर चलती हुई बिन्दु 'ल' (ग्राम रलिया, मुढाली एवं नवापारा के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- ल-म: रेखा बिन्दु 'ल' (ग्राम रलिया, मुढाली एवं नवापारा के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम रलिया और नवापारा के उभय सीमा रेखा पर चलती हुई बिन्दु 'म' (ग्राम रलिया, नवापारा एवं कटकीडबरी के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- म-न: रेखा बिन्दु 'म' (ग्राम रलिया, नवापारा एवं कटकीडबरी के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम रलिया एवं कटकीडबरी की उभय सीमा रेखा पर चलती हुई बिन्दु 'न' (ग्राम रलिया, कटकीडबरी एवं सरईसिंगार के मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।
- न-अ: रेखा बिन्दु 'न' (ग्राम रलिया, कटकीडबरी एवं सरईसिंगार के मिलान बिन्दु) से शुरू होकर ग्राम रलिया और सरईसिंगार के उभय सीमा रेखा पर चलती हुई प्रारंभिक बिन्दु 'अ' (ग्राम अमगाँव, रलिया एवं सरईसिंगार का मिलान बिन्दु) तक पहुंचती है।

[फा. सं. 43015/1/2024-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

S.O. 531(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 993(E) dated the 01st March, 2024, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 1st March, 2024, the Central Government give notice of its intention to prospect for coal in 863.000 hectares (approximately) or 2132.47 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 861.701 hectares (approximately) or 2129.27 acres (approximately) and all rights in or over the said land specified in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing NO. SECL/BSP/GM(L and R)/LAND/17 dated the 29th November, 2024 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Korba (Chhattisgarh) or in the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or in the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur 495006, Chhattisgarh.

S. NO	Name of Mouja/ village*	Village No.	Patwari halka/JL Number	Tahsil/PS*	District	Total (in hectares)	Remarks
1.	Ralia (Part)	5503250	00051	Dipka (Katghora)	Korba	22.298	This acquisition covers entire village.
Total:						22.298	

Total (A) + (B) = 839.403+22.298 = 861.701 hectares (approximately) or 2129.27 acres (approximately).

1. Plot numbers to be acquired in village Ralia: 14 (Part), 16/1 (Part), 16/6 (Part), 17, 32/1 (Part), 34/1 to 34/11 all parts, 38/1 (Part), 38/2 (Part), 38/7 to 38/193 all parts, 214 to 219 all plots, 228 to 230 all plots, 231/1 (Part), 231/2, 231/3 232/1 and 232/2, 236 to 1001 all plots.
2. Plot numbers to be acquired in village Mudiyanar: From khasara no. 1 to 326.
3. Plot numbers to be acquired in village Bhilai Bazar: 20 (Part), 72 (Part), 79/4,84 (Part), 85 to 105, 114 (Part), 116 to 194, 195 (Part), 204, 205, 223 to 239, 273 to 1511.

The instant proposal is meant for entire acquisition of villages Ralia, Bhilaibazar and Mudiyanar; therefore, if any plot number is still not mentioned under Sl.No. 1, 2 and 3 than it will be deemed to be acquired under section 7(1) as indicated in Plan No. SECL/BSP/GM(L and R)/Land/17 dated the 29th November, 2024 for all practical purposes.

Boundary description:

A-B: Line Starts from point 'A' (Trijunction point of villages Amgaon, Ralia and Saraisingar) and passes over the earlier acquired southern boundary of village Ralia, further runs over the common boundary of villages Ralia and Bhilaibazar and finally reaches up to point "B" (Trijunction point of villages Bhilaibazar, Mudiyanar and Ralia acquired part).

B-C: Line Starts from point 'B' (Trijunction point of villages Bhilaibazar, Mudiyanar and Ralia acquired part) further runs over the common boundary of village Mudiyanar and Bhilaibazar, and finally reaches upto the point 'C' (Trijunction point of acquired Bhilaibazar, non-acquired Bhilaibazar and Mudiyanar).

C-D: Line Starts from point 'C' (Trijunction point of acquired Bhilaibazar, non-acquired Bhilaibazar and Mudiyanar) and further runs over the southern acquired boundary of Bhilaibazar, then common boundary of Bahanpath and Bhilaibazar and further runs over the southern acquired boundary of Bhilaibazar after that runs over the common boundary of Bhathora and Bhilaibazar and finally reaches up to point 'D' (Trijunction point of village Bhathora, Bharbhata, and Bhilaibazar).

D-E: Line Starts from point 'D' (Trijunction point of village Bhathora, Bharbhata, and Bhilaibazar); further runs over the common boundary of villages Bharbhata, and Bhilaibazar and finally reaches up to point 'E' (Trijunction point of villages Bharbhata, Kesla, and Bhilaibazar.).

E-F: Line Starts from point 'E' (Trijunction point of villages Bharbhata, Kesla, and Bhilaibazar); further runs over the common boundary of villages Kesla and Bhilaibazar and finally reaches up to point 'F' (Trijunction point of villages Kesla, Bhilaibazar and Mauhadih).

F-G: Line Starts from point 'F' (Trijunction point of villages Kesla, Bhilaibazar and Mauhadih) further runs over the common boundary of Bhilaibazar and Mauhadih and finally reaches up to point 'G' (Trijunction point of villages Bhilaibazar, Mauhadih and Darri).

G-H: Line Starts from point 'G' (Trijunction point of village Bhilaibazar, Mauhadih and Darri). further runs over the common boundary of villages Bhilaibazar and Darri and finally reaches up to the point 'H' (Trijunction point of village Bhilaibazar, Darri and Chhindpur).

H-I: Line Starts from point 'H' (Trijunction point of village Bhilaibazar, Darri and Chhindpur) and runs over the common boundary of village Chhindpur and Bhilaibazar(Unacquired) and finally reaches upto the point 'I' (Trijunction point of village Bhilaibazar(Unacquired) Mudiyanar and Chhindpur).

I-J: Line Starts from point 'I' (Trijunction point of village Bhilaibazar(Unacquired) Mudiyanar and Chhindpur) and runs over the common boundary of villages Chhindpur and Mudiyanar and finally reaches upto the point 'J' (Trijunction point of village Ralia(Unacquired) Mudiyanar and Chhindpur).

J-K: Line Starts from point 'J' (Trijunction point of village Ralia (Unacquired) Mudiyanar and Chhindpur) and runs over the common boundary of village Ralia and Chhindpur and finally upto the point 'K' (Trijunction point of village Chhindpur, Ralia and Mudali).

K-L: Line Starts from point 'K' (Trijunction point of village Chhindpur, Ralia and Mudali). and runs over the common boundary of village Ralia and Mudali and finally reaches upto the point 'L' (Trijunction point of village Ralia, Mudali and Nawapara).

L-M: Line Starts from point 'L' (Trijunction point of village Ralia, Mudali and Nawapara) and runs over the common boundary of village Ralia and Nawapara and finally reaches upto the point 'M' (Trijunction point of village Ralia, Nawapara and Katkidabri).

M-N: Line Starts from point 'M' (Trijunction point of village Ralia, Nawapara and Katkidabri) and runs over the common boundary of village Ralia and Katkidabri and finally reaches upto the point 'N' (Trijunction point of village Ralia, Katkidabri and Saraishringar).

N-A: Line Starts from point 'N' (Trijunction point of village Ralia, Katkidabri and Saraisingar) and runs over the common boundary of village Ralia and Saraisingar and finally reaches upto the initial point 'A' (Trijunction point of village Amgaon, Ralia and Saraisingar).

[F. No. 43015/1/2024-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.